

**CERTIFICATE IN ORGANIC FARMING (COF)**

**Term-End Examination**

**December, 2012**

**BAPI-001 : ORGANIC PRODUCTION  
SYSTEM**

*Time : 2 hours*

*Maximum Marks : 50*

*Note : Attempt any five questions. All questions carry equal marks.*

1. Define the following terms. 2x5=10
  - (a) Buffer zone
  - (b) Relative humidity
  - (c) Heterotrophic
  - (d) Parasite
  - (e) Trap crops
  
2. Differentiate between 2.5x4=10
  - (a) Biopesticides and Biofertilizers
  - (b) Aerobic and Anaerobic
  - (c) Antifungal and Antibacterial
  - (d) Botanical pesticides and Biopesticides
  
3. (a) What are liquid manures? How they are different from FYM or composts ? 5x2=10  
(b) Enumerate the advantages of vermicomposting.

4. (a) Describe the importance of ground water contamination in Organic farming. **2x5=10**  
(b) Differentiate between Hay and Silage.
5. Name the different groups of biofertilizers. **10**  
Discuss their methods of application.
6. Write short notes on the following. **2.5x4=10**  
(a) Farm Yard Manure  
(b) NPOP  
(c) Vermiwash  
(d) IFOAM
7. (a) What is the role of crop rotation in building up of soil fertility and soil health ? **5x2=10**  
(b) What are the different types of composting methods adopted by farmers ?
8. (a) What are the three types of Bio-control procedures ? **5x2=10**  
(b) Enlist the different mechanical practices to control pests attacking the crops.
-

जैविक खेती में प्रमाण पत्र ( सी.ओ.एफ. )

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2012

बी.ए.पी.आई.-001 : जैविक उत्पादन पद्धति

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 50

**नोट :** किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. (a) ब.फर ज़ोन 2x5=10  
(b) सापेक्षिक आर्द्रता  
(c) परपोषित  
(d) परजीवी.  
(e) फांसू फसल
  
2. अंतर स्पष्ट कीजिए : 2.5x4=10  
(a) जैवकीटनाशी एवं जैवउर्वरक  
(b) वायुजीवी और अवायुजीवी  
(c) एंटीफंगल और प्रतिजीवाणुवीय  
(d) वानस्पतिक कीटनाशी और जैवकीटनाशी

3. (a) तरल खाद क्या हैं ? ये एफ वाई एम या कम्पोस्टों से कैसे भिन्न हैं ? 5x2=10
- (b) वर्मिकम्पोस्टिंग के लाभों की सूची बनाइए ।
4. (a) जैविक खेती में भौम जल संदूषण के महत्व का वर्णन कीजिए। 5x2=10
- (b) सूखी घास और साइलेज के अंतर को स्पष्ट कीजिए।
5. जैवउर्वरकों के विभिन्न समूहों के नाम लिखिए । इनके अनुप्रयोग की विधियों की चर्चा कीजिए । 10
6. निम्नलिखित पर संक्षेप में नोट लिखिए : 2.5x4=10
- (a) फार्म यार्ड खाद
- (b) एन पी ओ पी
- (c) वर्मिवाश
- (d) आई एफ ओ ए एम
7. (a) मृदा उर्वरता और मृदा स्वास्थ्य वृद्धि में फसल चक्रण की क्या भूमिका है ? 5x2=10
- (b) कृषकों द्वारा अंगीकृत कम्पोस्टिंग विधियों के विभिन्न प्रकार कौन से हैं ?
8. (a) जैव-नियंत्रण कार्यविधियों के तीन प्रकार कौन से हैं ? 5x2=10
- (b) फसलों पर कीटों के आक्रमण के नियंत्रण के विभिन्न यांत्रिक (मशीनी) व्यवहारों की सूची बनाइए ।